

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur-2021-197(GCMS2021-463) RTA225 Harchandram Vs State

1. हरचन्द्रराम पुत्र मालाराम
2. गोकलराम पुत्र मालाराम
3. छगु पुत्री मालाराम
4. छोटा पुत्री मालाराम
5. सुगना पुत्री मालाराम
6. लीला पुत्री मालाराम
7. रूपीदेवी पत्नी मालाराम के कायममुकाम-
 - 7.1. हरचन्द्रराम पुत्र मालाराम
 - 7.2. गोकलराम पुत्र मालाराम
8. सुगना पत्नी किशनलाल के कायममुकाम-
 - 8.1. लक्ष्मणराम गोदपुत्र किशनाराम
9. मोडाराम पुत्र मंगलाराम के कायममुकाम-
 - 9.1. मौरी देवी पत्नी मोडाराम
10. दाकू देवी पत्नी गिरधारीराम
11. चैनाराम पुत्र गोपाराम
12. बस्ताराम पुत्र गोपाराम
13. बाबुराम पुत्र गोपाराम
14. लिखमाराम पुत्र नारायणराम
15. टीपु पुत्री नारायणराम
16. बाया पुत्री नारायणराम
17. भारमलराम पुत्र हीराराम
18. पुकाराम पुत्र हीराराम के कायममुकाम-
 - 18.1. नरसिंहराम पुत्र पुकाराम
 - 18.2. श्यामलाल पुत्र पुकाराम
 - 18.3. मुन्नाराम पुत्र पुकाराम
19. पुसाराम पुत्र हीराराम

अपीलाण्ट्स...

ब न अ म

1. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनिज अभियन्ता,
खनिज विभाग, सर्किट हाउस,
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...



अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर दिनांक
28 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 312/2019
सरकार बनाम भानाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

निर्णय

दिनांक : 30 नवम्बर, 2022

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 312/2019 सरकार बनाम भानाराम आदि में पारित निर्णय दिनांक 28 अगस्त 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 11 फरवरी 2020 को प्रस्तुत की है। जो कमी-पूर्ति एवं मियाद के बिन्दु पर दिनांक 19 मार्च 2020 को खारिज कर दी गयी। अदालत हाजा के उक्त आदेश के खिलाफ प्रस्तुत निगरानी 2021/521 निस्तारित करते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 अक्टूबर 2021 के अनुसरण में कमी-पूर्ति कर दिये जाने से दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को पुनः संस्थित की जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा संख्या 643 रकबा 127 बीघा 11 बिस्वा एवं

श्री
अपील प्राधिकारी

खसरा संख्या 643/2 रकबा 50 बीघा वाके मौजा दांतीवाडा का अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा अकृषि प्रयोजनाथ उपयोग-उपभोग (बजरी का अवैध खनन) करना जाहिर किया और एम.एम.आर.डी. एक्ट 1957 तथा एम.एम.सी.आर. 1986 का उल्लंघन होने के कारण संबंधित प्रावधानों के तहत उक्त भूमि की खातेदारी निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रकरण संस्थित किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी और जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28 अगस्त 2019 उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए दो निर्णय (पहला प्रकरण संख्या 312/2019 सरकार जरिये तहसीलदार बनाम भानाराम व अन्य अंकित कर खसरा संख्या 643/2 बाबत एवं दूसरा प्रकरण संख्या 312/2019 सरकार जरिये तहसीलदार बनाम भानाराम आदि अंकित कर खसरा संख्या 643 बाबत) पारित कर वादग्रस्त भूमि को सिवाय चक घोषित किया एवं तहसीलदार को उक्त आराजी राज्य सरकार में समायोजित किये जाने का आदेश दिया। खसरा संख्या 643 बाबत पारित निर्णय के खिलाफ खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स में अपील-मीमों में अंकित बिन्दुओं एवं तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रार्थनापत्र के संबंध में पक्षकारान को नियमित वाद की भांति साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, मगर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177(4) को

नजरअदांज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया और प्रार्थी-रेस्पों. की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश हुए बिना ही अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट्स के खिलाफ पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 29 सितम्बर 2014 को संस्थित किया गया जिसमें अपीलाण्ट्स की ओर से दिनांक 17 अक्टूबर 2014 को वकालतनामा पेश करने बाबत अधिवक्ता श्री मनोज कुमार पुरोहित द्वारा अण्डरटेकिंग दी गयी। इसके बाद पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर/दौरे पर होने आदि कारणों से पेशी इल्टवा की जाती रही है और दिनांक 02 नवम्बर 2018 को अपीलाण्ट्स के जबाब का अवसर बन्द कर दिया गया। इसके बाद पुनः उक्त कारणों से तारीख-पेशीयाँ इल्टवा की जाती रही और दिनांक 7 अगस्त 2019 की आदेशिका में प्रार्थी की ओर से जबाब, दस्तावेज व शपथपत्र पेश होना अंकित कर आगामी पेशी दिनांक 14 अगस्त 2019 मुकर्रर कर दी गयी। इसके बाद दिनांक 28 अगस्त 2019 को अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील झूठे, मनगढंत एवं बेबुनियाद तथ्यों पर प्रस्तुत की गयी है। यह कहना भी सही नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता ने

राजस्थान अपील प्राधिकारी

अपीलाण्ट्स की सहमति के बिना ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए किन्तु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी कोई जबाब पेश नहीं किया गया। 2014(1) एसएससी 605 एवं एआईआर 2014(एससी) 1582 के संदर्भ से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अदालत हाजा में भी पूर्व में इस संबंध में घोर लापरवाही बरतते हुए अपील प्रस्तुत की गयी। 2019(2) आरआरटी 866 उद्धरित करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपने अधिवक्ता से सम्पर्क बनाये रखना स्वयं मुक्किल का दायित्व होता है। राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि लालच के अतिरेक में अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध रूप से बजरी का खनन किया है, अपीलाण्ट्स का यह कृत्य कृषि सुधार की श्रेणी में नहीं आता है अपितु इससे भूमि का कृषि स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स की ओर से कोई जबाब पेश नहीं किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के जबाब का अवसर बंद किया गया, जो न्यायोचित है। खातेदारी की कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग-उपभोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर



बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आघोपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

जहाँ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब तथा अपील के साथ अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, आलौच्य अपील कमी-पूर्ति एवं मियाद के बिन्दु पर खारिज करते हुए अदालत हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 मार्च 2020 खिलाफ प्रस्तुत निगरानी दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को स्वीकार करते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपीलाण्ट्स को एक अवसर दिया जाना न्यायोचित माना है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन निर्णय अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अतः उक्त प्रार्थनापत्रों में वर्णित बिन्दुओं एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत तर्कों पर विश्वास करते हुए उक्त दोनों प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते हैं।

गुणावगुण पर यह प्रकट होता है कि आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. की ओर से प्रार्थनापत्र आराजी खसरा संख्या 643 रकबा 127 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा संख्या 643/2 रकबा 50 बीघा वाके मौजा दांतीवाडा के संबंध में प्रस्तुत किया गया, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मात्र खसरा संख्या 643 बाबत ही पारित किया गया है, खसरा संख्या 643/2 के संबंध में अपीलाधीन आदेश में कुछ भी वर्णित नहीं किया गया है। अपितु अलग से उसी प्रकरण संख्या एवं अनवान लिखते हुए अलग से निर्णय पारित किया गया है।



इतना ही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में पेशी-दर-पेशी “आज पीठासीन अधिकारी दौरे पर है, अवकाश पर है, दीगर कार्य में व्यस्त है..” मुद्रित रबर स्टाम्प लगायी जाकर तारीख तब्दील की गयी है और इन आदेशिकाओं पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177(4) के अनुसार धारा 177 के प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने पर यदि अप्रार्थी निर्धारित समय पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाता है और प्रार्थनापत्र का विरोध करता है तो ऐसी स्थिति में धारा 177 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में नियमित वाद की भांति निर्धारित विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। आलौच्य मामले में अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेकिंग दी गयी, मगर तदनुसार वकालतनामा पेश होने अथवा नहीं होने के संबंध में किसी भी आदेशिका में कोई अंकन नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कोई वकालतनामा भी उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना मात्र सरसरी तौर पर कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक सम/2014/4612 दिनांक 08 जुलाई 2014 की अनुपालना में संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2014 से 15 जुलाई 2014 तक ग्राम दांतीवाडा का मौका मुआयना कर तैयार की गयी जिस मौका रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय का आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बनाया गया है, उसमें खसरा संख्या 643/2 का कोई उल्लेख ही नहीं है तथा खसरा संख्या 643 में अवैध खनन कार्य का क्षेत्रफल 58.5 बीघा अंकित किया हुआ है। संबंधित खातेदार के मौके पर उपस्थित होने बाबत इस रिपोर्ट में कुछ भी अंकित नहीं है और न ही संबंधित खातेदार के इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ निशान है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 178(2) में प्रावधान किया गया है कि -

178. Decree or Order under Section 177 -

- (1) A decree or order under Section 177 may direct the ejectment of a tenant either from the entire holding or from such portion thereof as the court, having regard to all the circumstances of the case, may direct.
- (2) Such decree or order shall further direct that if the tenant repairs the damage or pays such compensation as the court thinks fit within three months from the date of the decree or order or within such further period as the court may, for reasons to be recorded, allow the decree or order shall not be executed except in respect of costs.



जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 178(2) के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों, संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं निर्धारित विधिक प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित किये बिना पारित किया जाना प्रकट होता है जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ड्स स्वीकार की जाती है और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28 अगस्त 2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं निर्धारित विधिक प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करते हुए अपीलाप्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर मामले में नियमानुसार न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे। तब तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व रिकार्ड की आज दिनांक की स्थिति यथावत बनाये रखी जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मंगलाराम पूनिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर



A: 30.11.2022
राजस्व अपील प्राधिकारी